

# सॉल्वेंट से बनाया जा रहा था नकली डीजल-पेट्रोल:मेरठ के परतापुर में फिर पकड़ा गया नकली तेल



मेरठ में नकली डीजल पेट्रोल फिर से बनना शुरू हो गया है। रविवार को पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने नकली डीजल पेट्रोल सप्लाई होने की सूचना पर परतापुर क्षेत्र में छापा मारा। इस दौरान तेल माफिया वहां से फरार हो गये।

टीम ने करीब एक हजार लीटर से अधिक डीजल और पेट्रोल बरामद करते हुए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। इससे पहले 20 अगस्त 2019 को मेरठ में 2.20 लाख लीटर मिलावटी तेल परतापुर और टीपीनगर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था।

## अवैध तरह से चल रहा था तेल का धंधा

परतापुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बजट में अवैध रूप से चलाया जा रहा मिलावटी डीजल पेट्रोल का गोदाम पुलिस ने पकड़ते हुए मौके से करीब 1 हजार लीटर मिलावटी डीजल पेट्रोल बरामद कर लिया। इस दौरान मौके से आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

परतापुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बजट में काफी समय से दीपक पुत्र भगवान चंद्र का गोदाम किराए पर लेकर राजू बड़े पैमाने पर मिलावटी डीजल व पेट्रोल बना रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर गोदाम से तेल माफिया भाग निकले।

## सॉल्वेंट से बनाया जा रहा था मिलावटी तेल

अभी तक की जांच में बताया गया है कि जो डीजल पेट्रोल बरामद हुआ है वह मिलावटी है। सॉल्वेंट में केमिकल डालकर डीजल और पेट्रोल बनाया जा रहा था। उच्च अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/meerut/news/fake-oil-caught-again-in-meeruts-partapur-129984259.html>